

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 14.01.2023

एक अदद स्मार्ट फोन, 01 मैगजीन मय 05 जिन्दा कारतूस, 500 रुपये के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली नगर)

कल दिनांक 13.01.2023 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरायदली में एक व्यक्ति के घर से एक अदद स्मार्ट फोन, 01 मैगजीन मय 05 जिन्दा कारतूस, 500 रुपये चोरी होने की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33/2023 धारा 454, 380, 411 भादवि बनाम एक नामजद अभियुक्त के अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान दिनांक 13.01.2023 को थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 श्री वरुण प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के ग्राम सरायदली से अभियुक्त सुरेन्द्र गुप्ता उर्फ खूटी पुत्र स्व0 श्री घनश्याम गुप्ता नि0 सरायदली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को चोरी के एक अदद नोकिया फोन, 01 मैगजीन मय 05 जिन्दा कारतूस, 500 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुरेन्द्र गुप्ता उर्फ खूटी पुत्र स्व0 श्री घनश्याम गुप्ता नि0 सरायदली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

एक अदद स्मार्ट फोन,
01 मैगजीन मय 05 जिन्दा कारतूस,
500/- रुपये

पुलिस टीम- उ0नि0 वरुण प्रताप सिंह मय हमराह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कुण्डा)

जनपद के थाना कुण्डा से उ0नि0 श्री शनि कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 289/19 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त गोपी पटेल उर्फ दीपक पटेल पुत्र चन्द्रभान पटेल नि0ग्राम ठकुराईन का पुरवा मजरे भदरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कुण्डा तिरंगा ढाबा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

दुष्कर्म के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना महेशगंज)

जनपद के थाना महेशगंज से उ0नि0 श्री राहुल कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 07/23 धारा 363, 366, 376, 504, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त आशीष गौतम पुत्र बनवारी लाल गौतम नि0 ग्राम मुरैनी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र महेशगंज के हीरागंज चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।